



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 27, 2001/ माघ 7, 1922
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 27, 2001/MAGHA 7, 1922

इस भाग में मिला पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केंद्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की छोड़कर) द्वारा जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएँ
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2001

आ. प्र. 18.—यन. निर्वाचन आयोग का
समाधान हो गया है कि श्री धीरेन्द्र सिंह तोमर "धीरू",
एफ-9, डाठीपुर कालोनी, मुरार, खालिफर, मध्य प्रदेश के
एक अभ्यर्थी जिन्होंने नवम्बर, 1998 में हुए मध्य प्रदेश
विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए 16-लक्षकर पूर्व
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था, लोक
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा उसके अधीन बनाए
गए नियमों के अधीन अपेक्षित अपने निर्वाचन व्यय का कोई
भी लेखा दाखिल करने में असमर्थ रहा है ।

और यतः उक्त अभ्यर्थी ने सम्यक् सूचना दिये जाने पर
भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण या स्पष्टीकरण

नहीं दिया है और आयोग का यह समाधान हो गया है कि
उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई पर्याप्त कारण
या न्यायोचित्य नहीं है ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के
अनुसूचना में निर्वाचन आयोग इसके द्वारा यह घोषणा करता
है कि उक्त श्री धीरेन्द्र सिंह तोमर "धीरू" को संसद के
किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान
सभा या विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के
लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के
लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं. 76/म. प्र./2001 (1)]

आदेश से,

एल. एच. फारूकी, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

आदेश

ORDER

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2001

New Delhi, the 8th January, 2001

O.N. 18.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that Shri Dharendra Singh Tomar "Dheeru", F-9, Thathipur Colony, Morar, Gwalior, Madhya Pradesh, a contesting candidate at the General Election to Madhya Pradesh Legislative Assembly from 16-Lashkar East Assembly Constituency held in November, 1998 has failed to lodge any Account of election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate has not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that he has good reason or justification for the said failure;

Now therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares Shri Dharendra Singh Tomar "Dheeru" to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76|MP|2001(1)]

By Order,

L. H. FARUQI, Secy.

आ. प्र. 19.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार राज्य के विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2000 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्विनिर्दिष्ट नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथावश्यक अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के दोनों सदनों में किसी का या किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने और संवत्स्य होने या रहने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है :—

सारणी

| क्रम सं. | निर्वाचन का विवरण | निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. और नाम | निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता | निरक्षता का कारण |
|----------|--|-------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2000 | 318—पांकी | श्री मो. आशम ग्राम—मादन पो. + थाना—पांकी जिला—पलामू झारखंड। | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल। |
| 2. | —वही— | —वही— | श्री श्याम सुन्दर मिस्त्री ग्राम—लोहरी पोखरी नोरगा पो—धावाडीह जिला—पलामू झारखंड। | निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|----------------|--|---|
| 3. | बिहार विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2000 | 318—पंकी | श्री सुरेन्द्र राम ग्राम—पूणाडीह पो.—लेम्लीगंज जिला—पलामू झारखंड। | निर्वाचन व्ययों का लेखा बिधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल। |
| 4. | —वही— | —वही— | श्री कमल किशोर पाण्डे मुठुल्ला—तावाटोली वार्ड नं. 4, डालटनगंज जिला—पलामू, झारखंड। | —वही— |
| 5. | —वही— | 322—विश्रामपुर | श्री सुबोध कुमार मू.—पो.—गढ़वा मुठुल्ला—अरी जिला—गढ़वा झारखंड। | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल। |

[सं. 78/बिहार-वि.स./2000]

आदेश में,

बी.एन. चाबला, सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th January, 2001

O.N. 19.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Bihar Legislative Assembly held in February 2000 as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge any account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice or the Election Commission after considering the representation made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

| S. No. | Particular of election | Number & Name of the constituency | Name & Address of the candidates | Reason of disqualification |
|--------|--|-----------------------------------|---|--|
| 1. | General Election to the Legislative assembly of Bihar, 2000. | 318-Panki | Sh. Md. Alam. Vill. Maran, P.O. Panki, Distt.—Palamau, Jharkhand. | failure to lodge any account of election expenses. |
| 2. | -do- | -do- | Sh. Shayam Sunder Mistri, Vill. Lohri—Pokhari Nauranga, P.O. Dhawadih Distt. Palamau, Jharkhand. | Failure to lodge account of election expenses in the manner required by law. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|----------------|--|--|
| 3. | General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2000 | 318-Pinki | Sh. Surendra Ram, Vill. Purnadih, P.O. Lesliganj Distt. Palamau, Jharkhand. | Failure to lodge account of election expenses in the manner required by law. |
| 4. | -do- | -do- | Sh. Kamal Kishore Pandey, Vill. Nawatoli Ward No. 4, P.O.-Daltonganj, Distt. Palamau, Jharkhand, | -do- |
| 5. | -do- | 322-Bishrampur | Sh. Subodh Kumar, Vill. P.O. Garhwa Mohalla-Ari Distt. Garhwa Jharkhand. | Failure to lodge any account of election expenses. |

[No. 76/BR-LA/2000]

By Order,

B.N. CHAWLA Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2001

आ. म. 20—जबकि, भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मतम्भ/अक्षर, 1999 में हुए जम्मू व कश्मीर राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में नदनुखरी विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र में हुआ है, के स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्विषयक बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में बिल्कुल असफल रहे हैं/उनके द्वारा बाखिल लेखा समय के भीतर नहीं है और/अथवा विधि द्वारा निर्धारित ढंग से नहीं है ;

और जबकि, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्बन्ध सूचना दिये जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या व्यायोजित्य नहीं है ;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य/अथवा राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा विरहित घोषित करता है ।

| सारणी | | | | |
|-----------|---|-------------------------------------|---|--|
| क्रम. सं. | निर्वाचन का विवरण | निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. और नाम | निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम नाम और पता | निरर्हता का कारण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | जम्मू व कश्मीर राज्य में लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 1999 | 1—बारामूला | श्री मोहम्मद यासीन, सुपुत्र अलफ-उ-दीन, निवासी नौबागना करनाह (जम्मू व कश्मीर) | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे । |
| 2. | —वही— | —वही— | श्री बली मोहम्मद बानी, सुपुत्र मोहम्मद बानी, निवासी हेल-जागीर-सालूसा, बारामूला (जम्मू व कश्मीर) | विधि द्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे । |

[सं. 76/जम्मू व कश्मीर-लो. स. /99(3)]

आदेश से,

के. आर. प्रसाद, सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th January, 2001

O.N. 20.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Lok Sabha held in September/October, 1999 in the State of Jammu and Kashmir, as specified in column (2) and held from constituency correspondingly specified in column (3) against their names have either failed to lodge any account of their election expenses, or have failed to lodge their accounts of election expenses in time and/or in the manner specified by law, as shown in column (5) of the Table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice or the Election Commission, after considering the representation made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the person specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order:

TABLE

| Sl. No. | Particulars of election | No. and Name of Constituency | Name and address of contesting candidate | Reason for disqualification |
|---------|--|------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | General Election to the Lok Sabha held in 1999 in the state of Jammu and Kashmir | 1-Baramulla | Shri Mohd. Yasin, S/o Alaf-U-din, R/o Nowagabra, Karnah (Jammu and Kashmir). | Failure to lodge any account of election expenses. |
| 2. | -do- | 1-Baramulla | Shri Wali Mohd. Wani, S/o Mohd. Wani, R/o Hail-Jagir-Saloosa, Baramulla (Jammu and Kashmir). | Failure to lodge account of election in the manner required by law. |

[No. 76/J&K-HP/99(3)]

By Order,

K.R. PRASAD, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2001

आ. अ. 21.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि श्री अवतार सिंह, पट्टी मुज्जा सिंह, मक्तसर, पंजाब, जिन्होंने फरवरी, 1998 में हुए पंजाब राज्य में लोक सभा के 12-फरीदकोट लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में साधारण निर्वाचन लड़ा था, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और नदीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति में दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, उक्त अभ्यर्थी ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया ;

नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या औचित्य नहीं है ;

अतः अब, निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में इसके द्वारा श्री अवतार सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि लिए के निर्दिष्ट घोषित करना है ।

[नं. 76/पंजाब-लो. स./98 (4)]

आदेश से,

के. आर. प्रसाद, सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th January, 2001

O.N. 21.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that Shri Avtar Singh, Patti Sujja Singh, Muktsar, Punjab who contested the General Election to the Lok Sabha, 1998 in the State of Punjab from 12-Faridkot Parliamentary Constituency held in February, 1998 has failed to lodge the account of his election expenses in the manner, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation

for the failure to respond to the notice and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10-A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares said Shri Avtar Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of State/Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/PB-HP/98(4)]

By Order.

K. R. PRASAD, Secy.